

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 434]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2019—आषाढ़ 25, शक 1941

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई 2019

अधिसूचना

क्रमांक-एफ 1-144/2019/18.—छ. ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, नगर पंचायत पाटन, जिला दुर्ग के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्वारा अवधारित करता है :-

1. पाटन नगर पंचायत को 15 वार्डों में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारित करता है ।
2. यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जाएगा ।

अनुसूची

| वार्ड क्रमांक | वार्ड का नाम |
|---------------|---------------------|
| 01 | इंदिरा नगर 1 वार्ड |
| 02 | इंदिरा नगर 2 वार्ड |
| 03 | राजीव चौक वार्ड |
| 04 | भाटापारा वार्ड |
| 05 | अखरा वार्ड |
| 06 | मीलपारा वार्ड |
| 07 | बेलाहीपार वार्ड |
| 08 | आज़ाद चौक वार्ड |
| 09 | अस्पताल चौक वार्ड |
| 10 | सुभाष चौक वार्ड |
| 11 | ब्राम्हण पारा वार्ड |
| 12 | महावीर चौक वार्ड |
| 13 | शीतला पारा वार्ड |
| 14 | खोरपा वार्ड |
| 15 | अटारी वार्ड |

पाटन नगर पंचायत के वार्डों की चतुर्सीमा का विवरण

वार्ड कं. 1—इंदिरा नगर — 1 वार्ड

| | |
|---------|---|
| उत्तर— | अटल आवास सुरेन्द्र ढीमर घर से होते हुये दुबे तालाब से नरबद साहू घर तक |
| पूर्व — | नरबद साहू घर से फंदू घर तक |
| दक्षिण— | फंदू घर से भगवानदास के घर से होते हुये दिव्या आटो तक |
| पश्चिम— | दिव्या आटो से खेत होते हुये अटल आवास तक |

वार्ड कं. 2—इंदिरा नगर — 2 वार्ड

| | |
|----------|--|
| उत्तर— | बल्लू ढीमर घर से नहर पुलिया होते हुये सुनीता यादव घर से मुक्तिधाम तक |
| पूर्व— | मुक्तिधाम से विमल देवांगन घर होते हुये कृषि विभाग तक |
| दक्षिण— | कृषि विभाग कार्यालय से रेस्टहाउस होते हुये स्वर्णिम विहार तक |
| पश्चिम — | स्वर्णिम विहार बल्लू ढीमर घर तक |

वार्ड कं. 3— राजीव चौक वार्ड

| | |
|----------|--|
| उत्तर— | शासकीय उ.मा.कन्या शाला से सुरेन्द्र मिश्रा घर होते हुये मदिरा दुकान तक |
| पूर्व— | मदिरा दुकान से सोनवानी ट्रेडर्स तक |
| दक्षिण— | सोनवानी ट्रेडर्स से उदयराम सभागार होते हुये अनुविभागीय अधिकारी(रा) कार्यालय तक |
| पश्चिम — | अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कार्यालय से शासकीय कन्या उ.मा.शाला तक |

वार्ड कं. 4— भाटापारा वार्ड

| | |
|----------|---|
| उत्तर— | हेलीपेड से सेवा सहकारी समिति कार्यालय से होते हुये आत्मानंद चौक तक |
| पूर्व— | आत्मानंद चौक से डॉ. बिसेन क्लीनिक तक |
| दक्षिण— | डॉ. बिसेन क्लीनिक से पति राम देवांगन घर से हरिश किराना होते हुये पेंशनर भवन से होते हुये नहर तक |
| पश्चिम — | नहर से हेलीपेड तक |

वार्ड कं. 5— अखरा वार्ड

| | |
|----------|---|
| उत्तर— | सीएलसी महाविद्यालय से शिव यादव घर तक |
| पूर्व— | शिव यादव घर से हगरिया तालाब पार होते हुये रामकली कण्डरा घर से पुरानिक यमराज घर तक |
| दक्षिण— | पुरानिक यमराज घर से सुरेन्द्र वर्मा घर होते हुये कारी तालाब तक |
| पश्चिम — | कारी तालाब से सीएलसी महाविद्यालय तक |

वार्ड कं. 6— मीलपारा वार्ड

उत्तर— योगेन्द्र वर्मा का दुकान से हेमंत कपड़ा बाजार तक
 पूर्व— हेमंत कपड़ा बाजार से होरीलाल देवांगन घर होते हुये हिरामन निषाद घर तक
 दक्षिण— हिरामन निषाद घर से रूपराम वर्मा घर तक
 पश्चिम — रूपराम वर्मा घर से राजकुमार छेदैया घर से नंदकुमार नेताम हगरिया तालाब पार होते हुये योगेन्द्र वर्मा दुकान तक

वार्ड कं. 7— बेलाहीपार वार्ड

उत्तर— टी.व्ही.एस.शोरूम होते हुये मुरली साहू घर होते हुये पुरैना डबरी तक
 पूर्व— पुरैना डबरी से जोहर विश्वकर्मा घर होते हुये तातूराम निषाद घर तक
 दक्षिण— तातूराम निषाद घर से मटिया नाला तक
 पश्चिम — मटिया नाला से प्रीति देवांगन घर होते हुये टीव्हीएस शोरूम तक

वार्ड कं. 8— आजाद चौक वार्ड

उत्तर— सुरेन्द्र पटेल घर से भाले किराना से सतीश देवांगन घर तक
 पूर्व— सतीश देवांगन घर से धरमू पटेल घर तक
 दक्षिण— धरमू पटेल घर से बुद्ध तालाब होते हुये दशरथ वर्मा घर तक
 पश्चिम — दशरथ वर्मा घर से सुरेन्द्र पटेल घर तक

वार्ड कं. 9— अस्पताल चौक वार्ड

उत्तर— आत्मानंद चौक से होते हुये मिनीमाता चौक से पुराना बाजार मे स्थित बजरंग बलि मंदिर तक
 पूर्व— बजरंग बलि मंदिर से नगर पंचायत कार्यालय तक
 दक्षिण— नगर पंचायत कार्यालय से नया बस स्टैण्ड तक
 पश्चिम — नया बस स्टैण्ड आत्मानंद चौक तक

वार्ड कं. 10— सुभाष चौक वार्ड

उत्तर— आदर्श किराना स्टोर (संतोष देवांगन) से प्राथमिक कन्या शाला पाटन तक
 पूर्व— प्राथमिक कन्या शाला पाटन से राजू सोनी घर होते हुये रूपनारायण सावर्णी घर तक
 दक्षिण— रूपनारायण सावर्णी घर से कार्तिक देवांगन घर तक
 पश्चिम — कार्तिक देवांगन घर से पुरुषोत्तम देवांगन घर होते हुये आदर्श किराना स्टोर तक

वार्ड कं. 11— ब्राम्हण पारा वार्ड

- उत्तर— कुमारी बाई यादव घर से मोती ज्वेलर्स तक
 पूर्व— मोती ज्वेलर्स से महावीर चौक मंदिर से कार्तिक देवांगन घर से होते हुये
 छबिश्याम देवांगन घर तक
 दक्षिण— छबिश्याम देवांगन घर से हेते हुये धन्ना देवांगन के घर से गौकरण देवांगन
 घर तक
 पश्चिम — गौकरण देवांगन घर से कुमारी यादव घर तक

वार्ड कं. 12— महावीर चौक वार्ड

- उत्तर— निशा फैंसी स्टोर से विष्णु ढीमर घर तक
 पूर्व— विष्णु ढीमर घर से ताम्रध्वज पटेल घर हेते हुये तुलसी पटेल घर तक
 दक्षिण— तुलसी पटेल घर से रामरतन घर होते हुये बंसत गुप्ता घर तक
 पश्चिम — बंसत गुप्ता घर से हेमंत देवांगन घर होते हुये निशा फैंसी स्टोर तक

वार्ड कं. 13— शीतला पारा वार्ड

- उत्तर— शंकर यादव घर से उन्मुक्त खेल मैदान तक
 पूर्व— उन्मुक्त खेल मैदान से मुक्तिधाम तक
 दक्षिण— मुक्तिधाम से अरुण ठाकुर घर से होते हुये गजेन्द्र धुरंधर घर तक
 पश्चिम — गजेन्द्र धुरंधर घर से शंकर यादव घर तक

वार्ड कं. 14— खोरपा वार्ड

- उत्तर— जगदेव यादव घर से आंगनबाडी होते हुये जोहन यादव के कोठार से संतु
 यादव घर तक
 पूर्व— संतु यादव घर से नरेश वर्मा घर तक
 दक्षिण— नरेश वर्मा घर से वेयर हाउस तक
 पश्चिम — वेयर हाउस से धोबी समाज भवन होते हुये जगदेव यादव घर तक

वार्ड कं. 15- अटारी वार्ड

उत्तर- परमानंद नायक के ब्यारा से नहरनाली के किनारे होते हुये कम्यूनिटी हॉल तक
 पूर्व- कम्यूनिटी हॉल से चीर घर होते हुये एसएलएआरएम सेंटर तक
 दक्षिण- एसएलएआरएम सेंटर से सीताराम वर्मा घर तक
 पश्चिम - सीताराम वर्मा घर से परमानंद ब्यारा तक।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 आर. एक्का, उप सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई, 2019

क्रमांक-एफ 1-144/2019/18 - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-144/2019/18 दिनांक 12.07.2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 आर. एक्का, उप सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar dated 12 July, 2019

NOTIFICATION

No.F 1-144/2019/18 In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 29 of the chhattisgarh municipalities act 1961 (No.37 of 1961) the State Government hereby determine the extent of wards of Nagar Panchayat Patan Distt. Durg as per schedule given Below :-

1. Divides Nagar Panchayat Patan into 15 wards and described the limits of each ward as shown in schedule.
2. Notified that one councilor shall be elected from each such ward.

SCHEDULE

| S.No.of ward | Name of the ward |
|--------------|-----------------------|
| 1 | Indira Nagar- 01 ward |
| 2 | Indira Nagar- 02 ward |
| 3 | Rajeev Chowk ward |
| 4 | Bhatapara ward |

| | |
|----|---------------------|
| 5 | Akhara ward |
| 6 | Meelpara ward |
| 7 | Belahipaar ward |
| 8 | Azad Chowk ward |
| 9 | Aspatal Chowk ward |
| 10 | Shubhash Chowk ward |
| 11 | Brahman Para ward |
| 12 | Mahaveer Chowk ward |
| 13 | Sheetala Para ward |
| 14 | Khorapa ward |
| 15 | Atari ward |

Descriptions of the Boundries of ward of Nagar Panchayat Patan

Ward no. 01 Indira Nagar- 01 ward

| | |
|-------|---|
| North | From Atal House to Narbad Sahu house via house of Suresh Dhimar |
| East | Ghar, Dubey Pond |
| South | From Narbad Sahu Ghar to Fandu house |
| West | From Fondus house to Divya auto Via house of Bhagwan Das |
| | From Divya Auto to Atal house via agricultural land. |

Ward no. 02 Indira Nagar- 02 ward

| | |
|-------|---|
| North | From Balu Dhimar Home to Muktidham Via Canal Bridge, Sunita Yadav |
| East | Home |
| South | From Muktidham to Agriculture Office via Vimal Devangan house. |
| West | From Agriculture Office to Swarnim Vihar via Rest House, |
| | Swarnim Vihar to Ballu Dhimar House |

Ward no. 03 Rajeev Chowk ward

| | |
|-------|--|
| North | From Government High School Secondary School, to liquor shop via |
| East | house of Surendra Mishra house |
| South | From liquor shops to Sonvani traders |
| West | From Sonwani Traders to SDM Office Via Udayam Auditorium, |
| | From SDM Office to Government Girls Higher Secondary School |

Ward no. 04 Bhatapara ward

| | |
|-------|--|
| North | From Helipad to Atmanand Chowk via service co-operative office. |
| East | From Atmanand Chowk to Doctor Bisen Clinic |
| South | From Doctor Bisen Clinic to the canal via Patiram Dewangan house, Harish grocery, the pensioner building |
| West | From Canal to Helipad |

Ward no. 05 Akhara ward

| | |
|-------|--|
| North | From CLC College to Shiv Yadav house |
| East | Form Shiv Yadav house to Puranic Yamraaj house via Hagaria pond, to Ramkali Kandra house |
| South | from Puranic Yamraj house to Kari talab via Surendra Verma house |
| West | From kari talab to CLC College |

Ward no. 06 Meelpara ward

| | |
|-------|--|
| North | From Yogendra Verma's shop to Hemant Textile Store |
| East | From Hemant Textile Store to Hiranam Nishad house via Horilal Devangan House |
| South | From Hiranam Nishad house to Ruparam Verma's house |
| West | From Rupram Verma's house to Yogendra Verma's shop via house of Rajkumar Chadayya, Nandkumar Netam, cross Hagariya Talab |

Ward no. 07 Belahipaar ward

| | |
|-------|---|
| North | From TVS showroom to Purena Dabari via Murali Sahu house |
| East | from Purena Dabari, to Taturam Nishad house via Johar Vishwakarma house |
| South | From Taturam Nishad house to Matia Nala |
| West | Matia Nala to TVS showroom via Preeti dewangan house |

Ward no. 08 Azad Chowk ward

| | |
|-------|---|
| North | From Surendra Patel house to Satish Devangan via Bhaaley grocery |
| East | From Satish Devangan's house to Dharamu Patel's house |
| South | From Dharamu Patel house to Dasharath Verma's house via Boudhhu pond, |
| West | From Dasharath Verma's house to Surendra Patel's house |

Ward no. 09 Aspatal Chowk ward

| | |
|-------|--|
| North | From Atmanand Chowk to Bajrang Bally Temple located in Old |
| East | Market via Minimata Chowk, |
| South | From Bajrang Bali Temple to Nagar Panchayat Office |
| West | From Nagar Panchayat office to new bus stand From New Bus Stand to Atmanand Chowk |

Ward no. 10 Shubhash Chowk ward

| | |
|-------|---|
| North | from Adarash Grocery Store (santosh dewangan) to Primary Kanya |
| East | Shala Patan |
| South | From primary school girl Patan to Rupnarayan Savarni's house via Raju |
| West | Soni's house, From Rupnarayan Savarni House to Kartik Devangan's house From Kartik Devangan house to Adarash grocery store via Puroshattam Devangan, |

Ward no. 11 Brahman Para ward

| | |
|-------|---|
| North | From Kumari Bai Yadav from Home to Moti Jwellers |
| East | From Moti Jwellers to Chhabishyam Devangan house via Mahaveer |
| South | Chowk templ, Kartik Devangan house |
| West | From Chhabishyam Devangan house to Gaukaran, Devangan's house via Danna Devangan house Gaoukarn from Devangan house to Kumari Yadav house |

Ward no. 12 Mahaveer Chowk ward

| | |
|-------|--|
| North | From Nisha Fancy Store to Vishnu Dhimar's House |
| East | From Vishnu Dimar house, , to Tulsi Patel house via Tamrajdhvaj Patel |
| South | house |
| West | Form Tulsi Patel house to Basant Gupta house via Ramratan house Basant Gupta house to Nisha Fancy Store via Hemant Devangan house |

Ward no. 13 Sheetala Para ward

| | |
|-------|---|
| North | From Sankar Yadav house to Unmukt Play Ground |
| East | From Unmukt Play Ground to Muktidham |
| South | From Muktidham to Gajendra Dhurandhar house via Arun Thakur |
| West | house From Gajendra Dhurandhar house to Sankar Yadav house |

Ward no. 14 Khorapa ward

| | |
|-------|--|
| North | From Jagadev Yadav house to Santu Yadav house via Aangan badi, |
| East | Johan Yadav Kothar |
| South | From Santu yadav house Naresh Verma |
| West | From Naresh Verma to Warehouse |
| | From Warehouse to Jagadev Yadav house via Dhobi Samaj Auditorium |

Ward no. 15 Atari ward

| | |
|-------|--|
| North | From Paramanand Nayak khalian to Auditorium via Canal, |
| East | From Auditorium to SLRM Center via Postmortem Room |
| South | From SLRM Center to Sitaram Verma house |
| West | From Sitaram Verma house to Paramanand Nayak khalian |

By order & In the name of Governor of Chhattisgarh,
R.EKKA, Deputy Secretary.